



भिन्नों का जोड़ (समान भाजक)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{5}{6} + \frac{3}{6} =$$

$$\frac{1}{9} + \frac{4}{9} =$$

$$\frac{5}{9} + \frac{1}{9} =$$

$$\frac{2}{4} + 1\frac{2}{4} =$$

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{6} =$$

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} =$$

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{4} =$$

$$\frac{6}{9} + \frac{5}{9} =$$

$$1\frac{1}{6} + \frac{4}{6} =$$

$$1\frac{2}{4} + \frac{3}{4} =$$



भिन्नों का जोड़ (समान भाजक)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{5}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{9} + \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$$

$$\frac{5}{9} + \frac{1}{9} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{4} + 1\frac{2}{4} = 2$$

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$$

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$$

$$\frac{6}{9} + \frac{5}{9} = \frac{11}{9} = 1\frac{2}{9}$$

$$1\frac{1}{6} + \frac{4}{6} = \frac{11}{6} = 1\frac{5}{6}$$

$$1\frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$$